

11th August 2023

Ref:- GHL/2023-24/EXCH/39

The General Manager Dept. of Corporate Services BSE Limited, P J Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051

Scrip Code: 543654 Symbol: MEDANTA

Sub: Newspaper Publication - Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended June 30, 2023

Dear Sir/Madam.

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith, the copies of Newspaper clippings of the Unaudited Financial Results of the Company, for the Quarter ended June 30, 2023, published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on Friday, 11th August, 2023.

This is for your information and record.

Thanking You,

For Global Health Limited

Rahul Ranjan Company Secretary & Compliance Officer M. No. A17035

Encl: a/a













FINANCIAL EXPRESS

KFINTECH

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED (Formerly known as KFin Technologies Private Limited) CIN: L72400TG2017PLC117649

Registered Office: Selenium, Tower B, Plot No - 31 & 32,

Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad,

Rangareddi, Telangana - 500032, Tel. No.: +91 40 7961 5565,

Website: www.kfintech.com, Email: investorrelations@kfintech.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND

E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given to the members of KFin Technologies

Limited (Formerly known as KFin Technologies Private Limited) ("the

Company*) that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110

of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the

Rules"), and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of

India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, ("LODR Regulations"), General Circular No.

11/2022 dated December 28, 2022, and other Circulars issued by the

Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and other applicable

provisions, if any, of the Act, Rules, Circulars and Notifications issued

thereunder (including any statutory modification(s), clarification(s),

substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force),

the resolutions as set out in the Notice of Postal Ballot are proposed

for consideration by the members of the Company for passing by means of Postal Ballot by voting through electronic means

In compliance with the MCA Circulars, the Notice of Postal Ballot

along with the instructions regarding e-voting has been sent by

electronic mode only to those members whose names appear in the

Register of Members / list of Beneficial Owners, maintained by the

Depositories as on Friday, August 04, 2023 (i.e., Cut-off date), and

whose email addresses are registered with the Registrar and

Transfer Agent ("RTA") / Depository Participants ("DPs"). The email

The Notice of Postal Ballot is available on the website of the

Company at www.kfintech.com under the Shareholder Relations Section, website of National Securities Depository Limited ("NSDL")

at www.evoting.nsdl.com and the website of the stock exchanges

where the equity shares of the Company are listed i.e., BSE Limited

("BSE") at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India

Members may note that there will be no dispatch of physical copies of

Notice of Postal Ballot or Postal Ballot forms to the members of the

In accordance with Sections 108 and 110 Companies Act, 2013 read

with the corresponding rules made thereunder, and Regulation 44 of

the LODR Regulations, the Company is providing e-voting facility

only, to its members to exercise their right to vote on the resolutions

as set forth in the Notice of Postal Ballot. The Company has

i. Only those members whose name is recorded in the Register of Members/list of Beneficial Owners maintained by the depositories

as on Friday August 04, 2023, being the cut-off date, shall be

entitled to avail the facility of remote e-voting. The voting rights of

members shall be in proportion to their share in the paid-up equity

appointed NSDL as the agency to provide electronic voting facility.

Company and no physical ballot forms will be accepted.

All members may please note the following:

dissemination has been completed on Thursday, August 10, 2023.

RBI WARNS OF SPIKE IN INFLATION

Companies say rate pause could help spur demand

SWARAJ BAGGONKAR Mumbai, August 10

COMPANIES FROM ACROSS the sectors, including automotive, real estate and consumer durables have given a thumbs up to the Reserve Bank of India's decision of keeping the

policy rate unchanged.

This is the third time in a row that the central bank has held its key repo rate at 6.5%, though it has warned of a spike in inflation to 5.4% from 5.1% for the ongoing year.

"The RBI's pause in rate hikes over the past few quarters will certainly drive up real estate growth," said Niranjan Hiranandani, national vice chairman, National Real Estate Development Council.

"With stronger domestic consumption and NRI demand, the upcoming festive tailwinds are expected to create demand traction in the ownership and built-to-rent housing segments," he added.

The pause comes at a time when sectors like automotive are witnessing slackness in demand with companies offering discounts to liquidate stocks.

Demand for entry level models in cars and twowheeler segments have been weak and the RBI pause in rate hike might help spur demand, believe automakers.

Shashank Srivastava, senior executive officer, marketing

PRESS TRUST OF INDIA

THE SECURITIES APPELLATE Tri-

bunal (SAT) has set aside a markets

regulator Sebi's order directing the

National Stock Exchange (NSE) to

disgorge ₹62.6 crore, along with

against NSE, comprising a periodic

review of its co-location facility,

putting in place comprehensive

guidelines, Standard Operating Pro-

cedures and protocols with respect

However, all other orders passed

interest, in the dark-fibre case.

New Delhi, August 10

Higher rates would have translated into higher retail loan rates with a time lag and that would be adverse for sales SHASHANK SRIVASTAVA, SENIOR EXECUTIVE OFFICER, MARKETING AND SALES, MARUTI



The RBI's pause in rate hikes over the past few quarters will certainly drive up real estate growth

NIRANJAN HIRANANDANI, NATIONAL VICE CHAIRMAN, NATIONAL REAL ESTATE DEVELOPMENT COUNCIL



and sales, Maruti said, "Higher rates would have translated into higher retail loan rates with a time lag and that would be adverse for sales as 80% of the auto sales happen through financing routes."

durables

demand during the June quarter has remained largely soft, according to industry players but rural demand was clocking better growth. Similarly for the auto seg-

Consumer

ment, the rural segment has performed better than the urban segment in terms of With property registrations

in Mumbai falling 12% in July indicating the softness in demand, the pause in rate hike

is welcomed by most. Since the interest rate upcycle, the repo rate has been hiked by 250bps, resulting in 160bps rise in home loan rates. "The market is experienc-

ing a supply catch-up to meet the soaring demand for midpriced and luxury housing, while the weakening demand for affordable housing represents a spoiler alert," Hiranandani added. Sanjay Dutt, managing

director and chief executive office, Tata Realty & Infrastructure said, "Taking note of the homebuyer sentiment towards the economy, this move will help in sustaining the demand for luxury residential properties."

Bond yields fall on less hawkish RBI data

DHARAMRAJ DHUTIA Mumbai, August 10

THE BOND YIELDS ended lower on Thursday after the Reserve Bank of India (RBI) was not as hawkish as feared on monetary policy, with the focus now shifting to US inflation data later in the day and a fresh supply of notes.

The benchmark 7.26% 2033 bond yield ended at 7.1524%, after ending the previous session at 7.1745%.

"The policy outcome was on expected lines and the benchmark bond vield should trade between 7.05%-7.20% in the near term, with global factors contributing to a move on the lower side," said VRC Reddy, treasury head of Karur Vysya Bank. The RBI held its keylending rate steady at 6.50% for the third straight meeting on Thursday.

Inflation in Asia's third-

Rupee vs dollar 10-yr govt bond yield



largest economy snapped a four-month downward trend in June, when it climbed to 4.81%. Inflation likely accelerated to 6.40% in July, as per a Reuters poll.

The RBI, however, asked banks to maintain an incremental cash reserve ratio of 10% on an increase in deposits between May 19 and July 28, with effect from the fortnight

starting August 12, in a move that could pull out more than ₹1 trillion (\$12.10 billion) from the banking system.

The focus now shifts to US inflation data, due later in the day, and the fresh supply of debt on Friday in which New Delhi aims to raise ₹330 billion, including through the sale of ₹140 billion of a new 10-year paper. - **REUTERS**

Manappuram Finance posts ₹498-cr Q1 profit

SAJAN C KUMAR Chennai, August 10

KERALA-BASED MANAPPU-**RAM FINANCE** on Thursday reported a 76.6% rise in its consolidated net profit at ₹498 crore for first quarter of FY24 as compared to ₹282 crore in the corresponding quarter, aided primarily by its strong microfinance portfolio.

The NBFC's consolidated assets under management

(AUM) for Q1 stood at ₹37,086.3 crore, registering an increase of 20.6% over the corresponding quarter of FY23 and up by 4.6% q-o-q.

Net profit in the quarter for the standalone entity (which excludes subsidiaries) was reported at ₹380.9 crore as against ₹290 crore, posting a growth of 31.3%. Manappuram declared an interim dividend of 80 paise per equity share of face value ₹2.

AGGARSAIN SPINNERS LIMITED

CIN: L17297HR1998PLC034043

REGD. OFFICE: 2ND FLOOR, SCO 404, SECTOR-20, PANCHKULA-134116

Phone: 0172-4644666, 4644777, Email: aggarsainspinners@gmail.com

Website: www.aggarsainspinners.com

EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL

RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2023

. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly financial Results for first quarter ended June 30

2023 filed with the Stock Exhanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)

Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the Stock Exchange website (www.msei.in)

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting

Particulars

Total income from operation

Net Profit/(Loss) for the period (before tax,

Exceptional and/or Extraordinary Items)

Net Profit/(Loss) for the period before tax

Net Profit/(Loss) for the period after tax

& Other Comprehensive Income]

Equity Share Capital

(a) Basic (Rs.)

(a) Basic (Rs.)

held on 10.08.2023

Date: 10.08.2023

(b) Diluted (in Rs.)

Place: New Delhi

Date: August 10, 2023

Notes:

(b) Diluted (Rs.)

(b) Diluted (Rs.)

(After Exceptional &/or Extraordinary Items)

(After Exceptional &/or Extraordinary Items)

Total Comprehensive Income for the period

Reserve (excluding Revaluation Reserves as

shown in the balance sheet of previous year

Earning per share (after extraordinary items)

and on the company's website (www.aggarsainspinners.com).

Earning per share (before extraordinary

(not annualised): (of Rs.10/- each)

items)(not annualised): (of Rs. 10/- each)

[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)

quarter stood at ₹2,026.3 crore, an increase of 34.9% crore compared June 30, 2023.

Total consolidated operating income during the

from the year-ago quarter. The company's consolidated gold loan portfolio posted an increase of 0.6% to ₹20,603 ₹20,472 crore in the first quarter of FY23. The number of live gold loan customers stood at 2.4 million as on

Standalone

31.03.2023

(Audited)

2.860.57

52.35

52.35

37.82

350.34

1.08

1.08

1.08

1.08

For and on behalf of Board For Aggarsain Spinners Limited

3 Months Ended Year Ended

30.06.2023

1,289,42

10.68

10.68

7.91

350.34

0.23

0.23

0.23

0.23

Un-Audited

(₹ in Lacs)

Months Ended

30.06.2022

Un-Audited

137.85

4.97

4.97

3.72

350.34

0.11

0.11

0.11

0.11

Sunny Garg

Managing Director

share capital of the Company as on the cut-off date. Any person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. A member cannot exercise his vote by proxy on Postal Ballot. The remote e-voting period will commence at 9:00 a.m. (IST) on Friday, August 11, 2023, and will end at 5:00 p.m. (IST) on Saturday, September 09, 2023. Remote e-voting module will be disabled by NSDL upon expiry of the remote e-voting period.

Limited ("NSE") at www.nseindia.com

Instructions for remote e-voting

("e-voting") only.

iii. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member will not be allowed to modify it subsequently or cast the vote again.

The manner of remote e-voting for members holding shares in dematerialized mode and physical mode as well as for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of Postal Ballot.

Process for registering / updating e-mail address Members holding shares in physical form and who have not

updated their e-mail ids with the Company are requested to register / update their e-mail ids by sending either physical copy of duly filled in Form ISR-1 to the RTA Bigshare Services Private Limited at No. S6-2, 6" Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai-400093 or by sending the same by e-mail at investor@bigshareonline.com. Members holding shares in dematerialized (demat) mode are

requested to register / update their e-mail ids with the relevant DPs. In case of any queries / difficulties in registering the e-mail ids, members may write to investorrelations@kfintech.com. Members who need technical assistance

May refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members

and e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com; or

Call on 022-48867000 and 022-24997000; or

Contact Ms. Prajakta Pawle, Officer, National Securities Depository Limited, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013, India, at evoting@nsdl.co.in

Result of Postal Ballot The Board of Directors of the Company has appointed

Mr. S. N. Ananthasubramanian, Practising Company Secretary (FCS: 4206, COP No. 1774), or failing him, Mr. S. N. Viswanathan, Practising Company Secretary (ACS: 61955, COP No. 24335), partners of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer, for conducting the Postal Ballot through e-voting process in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting along with the Scrutinizer's Report will be announced by the Chairperson or such person as authorised, on or before Monday, September 11, 2023. The same will be displayed on the website of the Company at www.kfintech.com, the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and shall also be placed on the website of BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com. The Company will also display the results of the Postal Ballot at its Registered Office.

> For KFin Technologies Limited Alpana Kundu

> > Company Secretary and

Compliance Officer

Date: August 11, 2023

Place: Mumbai

to its co-location facility were found

according to an SAT order. In addition, the appellate tri-

Relief for NSE in dark-fibre case

appropriate and were upheld,


bunal has quashed Sebi's direction barring NSE's former MD and CEO Chitra Ramkrishna from holding any managerial positions in a market intermediary for three years and three other former officials -- Ravi Varanasi, Nagendra Kumar and Devi Prasad Singh -- for a period of two The case relates to the alleged

differential access given to certain broking firms in the form of 'dark fibre' at NSE, to connect across the members. Dark fibre or unlit fibre, with

co-location facilities before other

respect to network connectivity, refers to an already laid but unused or passive optical fibre, which is not connected electronics/equipment and does not have other data flowing through it and is available for use in fibre-optic communication. The order came after 11 entities

challenged Sebi's order passed in April 2019, against 17 entities, including NSE, its former officials and stock brokers.



Global Health Limited (formerly known as Global Health Private Limited)

CIN: L85110DL2004PLC128319

Regd. Office: Medanta Mediclinic, E-18, Defence Colony, New Delhi 110024, India Corp. Office: Medanta - The Medicity, Sector - 38, Gurugram, Haryana 122001, India

Tel: +91 124 483 4060 | E-mail: compliance@medanta.org | Website: https://www.medanta.org

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2023 (₹ in Lakhs except EPS)

SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2023	Quarter ended 30.06.2022	Year ended 31.03.2023
		(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from operations	79,449.87	62,654.36	275,916.31
2	Net profit for the period (before tax and exceptional items)	14,104.24	8,703.27	44,929.03
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items)	14,104.24	8,703.27	44,929.03
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items)	10,201.02	5,871.29	32,607.93
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	9,960.18	5,923.09	32,750.09
6	Paid up equity share capital	5,365.35	5,064.48	5,363.90
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			237,456.92
8	Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) -			
	Basic	3.80	2.32	12.58
	Diluted	3.80	2.31	12.57

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2023					
SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2023	Quarter ended 30.06.2022	Year ended 31.03.2023	
		(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	
1	Total income from operations	57,779.06	48,054.87	202,112.91	
2	Net profit for the period (before tax and exceptional items)	11,573.84	8,020.66	35,170.50	
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items)	11,573.84	8,020.66	35,170.50	
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items)	8,621.14	5,819.54	26,324.52	
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	8,407.29	5,867.27	26,440.40	

 These results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and accordingly approved. by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 10 August 2023. The result have been subjected to the limited review by the statutory auditors of the Company.

2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the consolidated and standalone Quarter/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also available at the company's website https://www.medanta.org. By order of the Board

for Global Health Limited Sd/-

Dr. Naresh Trehan Chairman and Managing Director



Registered Office: 143, Cotton Street, Kolkata - 700 007, West Bengal, India Corporate Office: 4771, Bharat Ram Road, 23, Daryaganj, New Delhi - 110 002, India | Tel.: 033-22684329, 011-43000400

E-mail: cs@elinindia.com | Website: www.elinindia.com | Corporate Identity Number (CIN): L29304WB1982PLC034725

EXTRACT OF UNAUDITED (STANDALONE & CONSOLIDATED) FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

(Rs. in Millions unless otherwise stated)

STANDALONE CONSOLIDATED Year Year Quarter Ended **Quarter Ended** Ended Ended **Particulars** March June June March June March June March 30th 2023 | 31st 2023 30th 2022 31st 2023 30th 2023 | 31st 2023 | 30th 2022 | 31st 2023 Unaudited Audited Unaudited Audited Unaudited Audited Unaudited Audited Total income from operations 2,084.83 2,077.96 2,468.89 8,670.64 2,538.33 2,687.23 2,941.17 10,754.28 2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ 53.77 2.94 37.39 49.32 22.71 38.16 or Extraordinary Items & Share of profit/(loss) of Associates) 276.84 357.02 3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items & Share of profit/(loss) of 53.77 2.94 37.39 276.84 49.32 22.71 38.16 357.02 4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items & Share of profit/(loss) of 41.24 3.77 33.78 211.55 37.73 16.00 31.28 268.02 5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other 43.12 3.85 37.77 39.43 14.52 Comprehensive Income (after tax)] 219.03 35.45 274.98 6 Paid-up Equity Share Capital 248.30 248.30 212.87 248.30 239.63 239.63 204.20 239.63 7 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) 3,971.21 4,691.35 8 Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (not annualized) a) Basic (in Rs.) 0.83 80.0 0.79 4.77 0.79 0.38 0.77 6.29

80.0

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Financial Results for the guarter ended 30th June, 2023 are available on the Stock Exchange

0.79

New Delhi

4.77

0.79

0.38

0.83

websites (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and Company's website (www.elinindia.com). The figures of the previous periods have been re-grouped/re-arranged wherever considered necessary.

For ELIN ELECTRONICS LIMITED

0.77

6.29

Kamal Sethia Managing Director DIN: 00081116

financialexp.epap.in

Place: Gurugram

Date: 10 August 2023



JM FINANCIAL

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड निगमित पहचान संख्या : U67190MH2007PLC74287

पंजीकृत कार्यालय : 7वां तल, सीनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025 फोन : +91 22 6630 3030, फैक्स : +911 22 6630 3223, www.jmfinancialarc.com संपर्क व्यक्ति : 1. निशांत गौतम – 9899216466, 2. रोहन सावंत – 9833143013, 3. अक्षय हस्सीजा – 8080239611

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ने वित्तीय परिसंपि के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफॉएसि अधिनियम") की धारा 5 (1) (बी) के अंतर्गत जेएमएफएआरसी (जेएम) (यह इसमें असाइनी के रूप में संदर्भित) जेएमएफएआरसी – अरन्या – ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत, के पक्ष में एक असाइनमेंट अनुबंध दिनांक 29 मार्च 2023 (''असाइनमेंट अनुबंध'') के माध्यम से अंतर्निहित प्रतिभूति हित के साथ उसके सृजित सभी अधिकारों, स्वामित्व एवं ब्याज सहित ऋण का एक पूल (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) सौंपा है। यह अधिसचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट /सेवा अनबंध के माध्यम से सभी परिचालनों और प्रक्रियागत

कार्यवाहियों को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता / संग्रहकर्ता एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत एवं नियुक्त किया गया है। उधारकर्ता / ओं से देय राशि की वसूली के लिए सरफॉएसि अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे उल्लिखित प्रतिभूति संपत्ति का अधिग्रहण करने के अनुपालन में, यहां नीचे विवरणितानुसार, अचल संपत्ति, जो भौतिक अधिग्रहण के अधीन है, के ''जैसी है जहां है आधार'', ''जैसी है जो है आधार" और "वहां जो कुछ भी है आधार" पर क्रयार्थ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिन संपत्तियों का विवरण यहां नीचे दिया गया है।

ऋण कोड / शाखा / उधारकर्ता(ओं) / सह—उधारकर्ता(ओं) / गारंटर के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	संपत्ति पता—अंतिम संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जिसका विस्तार इस	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (05—08—2023)
ऋण कोड संख्या 19600044649, दिल्ली — सफदरजंग (शाखा), प्रिया शर्मा (उधारकर्ता), रजनीश शर्मा (सह—उधारकर्ता 1)	दिनांक : 28–06–2021, रु. 2444850 / –, (रुपये चौबीस लाख चौवालीस हजार आठ सौ पचास मात्र)	प्रभारत के समस्त मांग तथा अशे जिसका विस्तार इस प्रकार है : पी. नं. 15 एवं 16, टी.एफ. बैक साइड (आर. एच.एस.) छत ख. नं. 362 के साथ, ग्राम नवादा, आर. के. ब्लॉक, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली— 110059 में स्थित है, सीमायें : उत्तर— प्लॉट नंबर 15 का भाग, दक्षिण— एलएचएस की यूनिट और प्लॉट नं. 17, पूर्व— फ्रंट साइड की इकाई और सड़क 18 फुट, पश्चिम— गली 08 फुट	रु. 1476000 / –, (रुपये चौदह लाख छिहत्तर हजार मात्र)	रु. 147600 / –, (रुपये एक लाख सैंतालिस हजार छह सौ मात्र)	रु. 2962303 / – (रुपये उनतीस लाख बासठ हजार तीन सौ तीन मात्र)
ऋण कोड संख्या 1890000045, बहादुरगढ़ (शाखा), अरविंद आहूजा (उधारकर्ता), सुपर्णा आहूजा (सह—उधारकर्ता 1)	दिनांक : 31–07–2019, रु. 18786675 / – (रुपये एक करोड़ सत्तासी लाख छियासी हजार छह सौ पिचहत्तर मात्र)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जिसका विस्तार इस प्रकार है : प्लॉट नं.—136, तृतीय तल, अम्बिका विहार, पश्चिम विहार दिल्ली दिल्ली — 110087, सीमाएँ : उत्तर— सड़क, दक्षिण— सर्विस लेन, पूर्व— प्लॉट नं. 137, पश्चिम— सड़क	रु. 13230000 / – (रुपये एक करोड़ बत्तीस लाख तीस हजार मात्र)	रु. 1323000 / – (रुपये तेरह लाख तेईस हजार मात्र)	रु. 31987008 / – (रुपये तीन करोड़ उन्नीस लाख सत्तासी हजार आत मात्र)
ऋण कोड संख्या 27300000471, द्वारका (शाखा), अमित बाजपेयी (उधारकर्ता), अतुल बाजपेयी (सह—उधारकर्ता 1) ऋतु बाजपेयी (सह—उधारकर्ता 2)	दिनांक : 21—01—2020, रु. 2713052 / — (रुपये सत्ताईस लाख तेरह हजार बावन मात्र)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जिसका विस्तार इस प्रकार है : तृतीय तल, फ्लैट नंबर सी, (आरएचएस) केएच–364, न्यूनतम विस्तारित, लाल डोरा बृजवासन नई दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली :– 110061, सीमाएँ : उत्तर– संपत्ति का हिस्सा उसके बाद अन्य उचित, दक्षिण– संपत्ति का हिस्सा उसके बाद सड़क 25 फुट, पूर्व– संपत्ति का भाग उसके बाद, पश्चिम– गली 17 फुट	रु. 2349000 / – (रुपये तेईस लाख उनचास हजार मात्र)	रु. 234900 / – (रुपये दो लाख चौंतीस हजार नौ सौ मात्र)	रु. 4015745 / – (रुपये चालीस लार पन्द्रह हजार सात सौ पैंतालीस मात्र)
ऋण कोड संख्या 25500000298, नेताजी सुभाष प्लेस (शाखा), संतोख सिंह (उधारकर्ता), राज रानी (सह—उधारकर्ता 1)	दिनांक : 22–05–2021, रु. 11002442 / – (रुपये एक करोड़ दस लाख दो हजार चार सौ बयालीस मात्र)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जिसका विस्तार इस प्रकार है : संपत्ति संख्या सी–17/1 प्रथम तल बंगलो रोड आदर्श नगर, नई दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली – 110033, सीमाएं : उत्तर– दक्षिण पूर्व– प्लॉट नं. 18, दक्षिण– दक्षिण पश्चिम– सड़क, पूर्व– उत्तर पूर्व– अन्य प्लॉट, पश्चिम– उत्तर पश्चिम– प्लॉट नंबर–17	रु. 3150000 / — (रुपये इकतीस लाख पचास हजार मात्र)	रु. 315000 / – (रुपये तीन लाख पन्द्रह हजार मात्र)	रु. 15060268 / – (रुपये एक करोड़ पचास लाख साठ हजार दो सौ अड़सठ मात्र)
ऋण कोड संख्या 25500001206, नेताजी सुभाष प्लेस (शाखा), रमन कुमार (उधारकर्ता), राधा देवी (सह—उधारकर्ता 1)	रु. 1397389 / – (रुपये तेरह लाख सत्तानबे हजार तीन सौ नवासी मात्र)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जिसका विस्तार इस प्रकार है : संपत्ति संख्या टी 184 तृतीय तल पीछे की ओर खसरा नं. 18 ग्राम बिंदापुर ब्लॉक टी उत्तम नगर नई दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली — 110059, सीमाएँ : उत्तर— सड़क 25 फुट, दक्षिण— गली 10 फुट, पूर्व— भूखंड का भाग, पश्चिम— भूखंड सं. टी—185	रु. 1134000 / – (रुपये ग्यारह लाख चौंतीस हजार मात्र)	रु. 113400 / – (रुपये एक लाख तेरह हजार चार सौ मात्र)	रु. 1861180 / – (रुपये अड्डारह लार इकसठ हजार एक सौ अस्सी मात्र)
अ	सीमित विस्तार के स	30—08—2023 को मध्या. 11.00 बजे से अपराद्घ 2.00 ॥थ), बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 29—08—2। ⊓ https://www.jmfinancialarc.com/Home/A	023 को सायं 4.00) बजे से पूर्व	w.bankauction.i

उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता हेतु सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत 15 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना

उपर्युक्त उधारकर्ता / गारंटर को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना में उल्लिखितानुसार राशि का आज की तिथि तक राशि पर प्रोद्भूतकृत ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी / उसे बेच दिया जायेगा तथा शेष बकाया राशियां. यदि कोई हो, की वसली उधारकर्ता / गारंटर से ब्याज एवं लागत सहित की जायेगी।

दिनांक : 11-08-2023 (प्राधिकृत अधिकारी) (अरण्य – ट्रस्ट) स्थान : दिल्ली

दक्षिण मध्य रेलवे दम् रेलवे की निवदा माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2023 के लिये ई-नीलामी कार्यक्रम सितम्बर ई–नीलामी–2023.

मंडल/डिपो

नांदेड़

गुन्टाकाल

हैदराबाद

विजयवाडा

हैदराबाद

गुन्टाकाल

सिकन्दराबाद लल्लागुडा रायणापाडु तिरुपति

गुन्टूर

नांदेड़

नांदेड़

गुन्टाकाल

हैदराबाद

विजयवाड़ा

लल्लागुडा

विजयवाडा

हैदराबाद. गुन्टाकाल, गुन्टूर

सिकन्दराबाद लल्लागुडा

रायणापाडु

अक्टूबर ई-नीलामी-2023

मंडल ∕डिपो

तिरुपति

नांदेड़

गुन्टूर

हैदराबाद

सिकन्दराबाद

विजयवाड़ा

गन्टाकाल

सिकन्दराबाद

तिरुपति

नांदेड़

गुन्टूर

सिकन्दराबाद

विजयवाडा

रायणापाडु

विजयवाडा

सिकन्दराबाद

रायणापाडु

तिरुपति

गुन्टाकाल, गुन्टूर, नांदेड़

निविदा की विस्तृत शर्तौं विवरणों तथा

निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिये

कृपया वेबसाइट

https://www.ireps.gov.in अथवा

www.scr.indianrailways.gov.in

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक

सिकन्दराबाद

गुन्टूर

सिकन्दराबाद. तिरुपति

01.09.23

04.09.23 05.09.23

06.09.23

08.09.23

11.09.23

12.09.23

13.09.23

14.09.23

15.09.23

19.09.23

20.09.23 21.09.23

22.09.23

25.09.23

26.09.23

27.09.23

29.09.23

03.10.23

04.10.23

05.10.23

06.10.23

09.10.23

10.10.23

11.10.23

12.10.23

13.10.23 16.10.23

17.10.23 18.10.23

19.10.23

20.10.23

25.10.23

26.10.23

27.10.23

30.10.23

31.10.23

A1267

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड **Chola** कार्पोरेट कार्यालय : प्रथम तल, 'डेयर हाउस' नंबर 2, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001 शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल. प्लॉट नंबर ६, मेन पुसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

स्थानः गुरुग्राम

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भुगतान उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेत सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा। प्रतिभृतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पहले पूरी बकाया राशि सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्ची सहित चुकाकर प्रत्याभूत आस्ति छुड़ा सकते हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
(y)	(ৰী)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1.	ऋण खाता संख्या X0HEDHE00001005347 एवं X0HEELD00001571745 एवं HE02ELD00000006329 1. कृष्ण कुमार गुलयानी पता : मकान सं. 6212 भूतल, जैन मंदिर गली, गांधी नगर, नई दिल्ली—110031 2. पूनम गुलयानी, पता : 35 प्रथम तल, राम नगर एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110051	13-09-2021	रु. 38,71,709.45 09—09—2021 तक	राम नगर एक्स., खुरेजी खास, शाहदरा, दिल्ली में स्थित खसरा सं. 4/39 में से संपूर्ण प्रथम तल भाग निर्मित सम्पत्ति सं. 35 के समस्त भाग तथा अंश, मापन क्षेत्र 60 वर्ग गज चौहद्दी : पूरब : श्री बी के सहगल द्वारा स्वाधिकृत सम्पत्ति सं. 36, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति, उत्तर : रोड, दक्षिण : गली	09—08—2023 भौतिक
2.	ऋण खाता सं. X0HEELD00002309913, X0HEELD00002350889 तथा X0HEELD00003446629) 1. रोहित कुमार, पता : आरजैड 32 ए जैन कालोनी पार्ट—3, उत्तम नगर शिक्षादीप, नई दिल्ली—110059 2. सुकृति सिंह पता : आरजैड 32 ए जैन कालोनी पार्ट—3, उत्तम नगर शिक्षादीप स्कूल डीके मोहन, नई दिल्ली—110059	18-08-2021	रू. 28,49,829.73 18—08—2021 तक	जैन कालोनी पार्ट ।।। नामक कालोनी, उत्तम नगर, ग्राम मटियाला, नई दिल्ली में स्थित खसरा नंबर 33/2 मिन के हिस्से में 50 वर्ग गज परिमाप के प्लॉट नंबर 32 के पोर्शन पर निर्मित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. आरजैड–32 अब आरजैड–32/ए के रूप में ज्ञात, का सम्पूर्ण अपर ग्राउंड फ्लोर तथा सम्पूर्ण थर्ड फ्लोर इसके छत के अधिकार के साथ, परिमाप 30 वर्ग मीटर (बैक साइड)	023

| एफ–65 ए विश्वास पार्क उत्तम नगर शिक्षादीप स्कूल डी.के मोहन, नई दिल्ली–110059 तिथि : 11-08-2023 स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी : मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

लॉर्ड्स क्लोरो ऐक्कली लिमिटेड

सीआईएन : L24117RJ1979PLC002099 पंजी. कार्यालय : एसपी-460, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301030 (राजस्थान) कार्पोरेट कार्यालय : ए-281, प्रथम तल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024 फोन : +91-11-40239034 / 35 / 36 / 37 / 38, ई-मेल : secretarial@lordschloro.com, वेब : www.lordschloro.com

		तिमाही समाप्त		(रू. लाख में) वर्ष समाप्त	
विवरण	जून 30, 2023 (अलेखापरीक्षत)	मार्च 31, 2023	जून 30, 2022 (अलेखापरीक्षित)	मार्च 31, 2023 (लेखापरीक्षित	
कुल आय	5,367.51	6,052.54	8,462.20	29,649.42	
अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(36.68)	535.99	3,045.23	7,471.00	
अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर पूर्व (अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(36.68)	535.99	3,045.23	7,471.00	
अवचि हेतु शुद्ध लाग/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(31.75)	372.99	2,204.29	5,322.30	
वर्ष हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है]	(3.30)	(16.91)	1.23	(13.24)	
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक)	2,515.39	2,515.39	2,515.39	2,515.39	
अन्य इविवटी, आस्तियों और देयताओं के विवरण के अनुसार	595000	*	*		
प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का) (वार्षिककृत नहीं) :	100000000000000000000000000000000000000	L. William		1010000000	
(क) মূল	(0.13)	1.48	8.76	21.16	
(ख) तनुकृत	(0.13)	1.48	8.76	21.16	

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 09 अगस्त, 2023

1) उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा उनकी 09 अगस्त, 2023 को आयोजित बैठक में पुनरीक्षित और अनुशसित किए गए हैं और तद्परांत निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक में विचारित एवं अनुमोदित किए गए हैं। ये परिणाम सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, यथा संशोधित, के विनियम 33 के अनुसार हैं। कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 30 जून, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु इन परिणामों की लेखापरीक्षा की गई है।

3) भारतीय लेखांकन मानक ("आईएनडी एएस") 108 "प्रचालन खण्ड" के अनुसार, कम्पनी का व्यवसाय एकल व्यवसाय खण्ड नामतः क्लोरो ऐल्कली

2) उपरोक्त वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में विनिर्दिष्ट अनुसार कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अधीन अधिसूचित अनुसार भारतीय लेखांकन मानक ("आईएनडी एएस") के सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

सेक्टर / कास्टिक सोडा का उत्पादन के अंतर्गत आता है। कराधान का प्रावधान आयकर की लागू दरों पर किया गया है।

पूर्व अवधि के आंकड़े, जहां आवश्यक है, पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित तथा / अथवा पुनर्निर्धारित किए गए हैं।

वास्ते लॉडर्स क्लोरो ऐल्कली लिमिटेड अजय विरमानी (प्रबंध निदेशक)

डीआईएन : 00758726



ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड सीआईएन: L85110DL2004PLC128319

राज. कार्यालय: मेदांता मेडिक्लिनिक, ई-18, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली 110024, भारत कापोरेंट कार्यालयः मेदांता-द मेडिसिटी, सेक्टर -38, गुरुग्राम, हरियाणा 122001, भारत दूरभाषः+91 124 483 4060 | ई-मेल: compliance@medanta.org | वेबसाइट: https://www.medanta.org

> 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(ईपीएस को छोड़कर लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2023	समाप्त तिमाही 30.06.2022	समाप्त वर्ष 31.03.2023
		(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	79,449.87	62,654.36	275,916.31
2	अवधि हेतु निवल लाभ (कर तथा अपवादित मदों से पूर्व)	14,104.24	8,703.27	44,929.03
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित मदों के बाद)	14,104.24	8,703.27	44,929.03
4	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित मदों के पश्चात)	10,201.02	5,871.29	32,607.93
5	अविध हेतु कुल व्यापक आय [अविध हेतु (कर पश्चात) लाभ तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल]			
		9,960.18	5,923.09	32,750.09
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	5,365.35	5,064.48	5,363.90
7	आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	_		237,456.92
8	आय प्रति शेयर (रु. 2/- प्रत्येक) बेसिक	000000	1001000	8129733
	डाइल्यूटेड डाइल्यूटेड	3.80	2.32	12.58
	, a	3.80	2.31	12.57

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैण्डएलीन अलेखाएगेथित तिनीय एगिगामों का गार

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
		30.06.2023	30.06.2022	31.03.2023
		(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	57,779.06	48,054.87	202,112.9
2	अवधि हेतु निवल लाभ (कर तथा अपवादित मदों से पूर्व)	11,573.84	8,020.66	35,170.5
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित मदों के बाद)	11,573.84	8,020.66	35,170.5
4	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित मदों के पश्चात)	8,621.14	5,819.54	26,324.5
5	अविध हेतु कुल व्यापक आय [अविध हेतु (कर पश्चात) लाभ तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल]	In the second of the second of	No. arrentestro. 2	urragement a se
		8,407.29	5.867.27	26,440.4

1. लेखापरीक्षा समिति द्वारा इन परिणामों की समीक्षा और सिफारिश की गई है और तदनुसार 10 अगस्त, 2023 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। ये परिणाम कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा के अध्यधीन हैं।

2. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल किए गए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। समेकित और स्टैंडअलोन तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com और www.nseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट https://www.medanta.org पर भी उपलब्ध है।

> बोर्ड की आज्ञानुसार ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड के लिए

डॉ. नरेश त्रेहन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दिनांक: 10 अगस्त, 2023

ओ.ए. सं. 844 / 2021

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

सेवा में, (1) फारूक अली डी/डब्ल्यू/एस/ओ- श्री अख्तर अली पुत्र श्री अख्तर अली आरजैडबी-89 फुटा रोड, निकट हीरो होंडा शोरूम, निहाल विहार, नांगलोई, दिल्ली—110041 अन्य पता : गुराना रोड, बड़ौत बांगपत, उत्तर प्रदेश-250609 अन्य पता : 259/58, सुखदेव नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281305 वेस्ट दिल्ली-110041, अन्य पता : 259 / 59, सुखदेव नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281305

(2) अनवर अली पुत्र श्री जुमा खान बी-69-सी, ब्लॉक बी, गौरव नगर-2, प्रेम नगर-3, किराड़ी सुलेमान नगर सुल्तानपुर, दिल्ली–110086, **अन्य पता** : 219, द्वितीय तल, वर्धमान फैशन मॉल रोड नंबर 43, पीतमपुर **अन्य पता :** 259 / 59, सुखदेव नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश–281305 अन्य पता : मकान नंबर 114, ग्राम कार्ज खेड़ा, पोस्ट ऑफिस : कोठी खिदमतपुर, तहसील कांठ, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश–244001, अन्य पता : मकान नंबर डब्ल्यूजैड-152 ई, गली नंबर 15, जी ब्लॉक, हार्ट नगर, नई दिल्ली-110064 जबिक उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरुद्ध रू. 24,63,695.79 (रूपए चौबीस लाख तिरेसठ हजार छह

सौ पिच्यानवे तथा पैसे उनासी मात्र) की वसुली के लिए एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सचना दिया जाना संभव नहीं है इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 15-12-2023 को पूर्वा. 10.30 बजे विद्वार रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया डीआरर्ट वेबसाइट www.etribunal.gov.in देखें फोन नंबर 011-23748473)। ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किय

वैश्विक महामारी की वर्तमान स्थिति के कारण, सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की जाएगी और उस प्रयोजन हेतु :- (i) सभी अधिवक्ता/विवादी "Cisco Webex" ऐप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे ; (ii) रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी-।/तथा वसूली अधिकारी-।। द्वारा मामलों की सुनवाई की अगली तिथि हेतू "Meeting ID" तथा "Password" अगली तारीख से एक दिन पहले डीआरटी वं आधिकारिक पोर्टल नामतः "drt.gov.in" पर सार्वजनिक सूचना शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध होगा। (iii) किसी कार्याधिक्य की स्थिति में, अधिवक्ता / विवादी संबंधित पदाधिकारी से फोन नंबर 011-23748473 पर सम्पर्क कर सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 28 जुलाई, 2023 को दिया गया। प्रतिवादी आगे पछताछ के लिए नीचे लिखे नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं। श्री अमित के. डार. विद्वान रजिस्टार फोन नंबर 011-23744873 इस न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा, सहायक रजिस्ट्रार

प्रपत्र बी सार्वजनिक घोषणा

भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन]

क्रिक रुको - पीरिया पारवेर विधिरेर रिक्शास्कों के शास

	ब्यौरा
कार्पोरेट देनदार का नाम	आकृति इन्फो–मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	14 मई 2008
प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत हैं	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज— नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत
कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74300DL2008PTC178128
कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	पंजीकृत कार्यां लय : एफएफएस नं. 24 उद्योग शील महिला सहकारी समिति लिमिटेड 120 मधुरा रोड, अपोलो अस्पताल के पास नई दिल्ली—110076
कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता समापन तिथि	9 मार्च 2023 (श्री अशोक कुमार जुनेजा को परिसमापक नियुक्त किया गया था, लेकिन पूर्व—व्यस्तता के कारण उन्होंने मामले को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की, तदनुसार माननीय एनसीएलटी ने अपने आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2023 के तहत श्री विनीत गुप्ता को परिसमापक के रूप में नियुक्त किया)
कार्पोरेट देनदार के संबंध में परिसमापन आरंभन तिथि	07 अगस्त, 2023 (वह तारीख जब आदेश की प्रति परिसमापक के ध्यान में लाई गई)
परिसमापक के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	विनीत गुप्ता पंजी.सं.:IBBI/IPA-001/IP-P00810/2017-2018/11377
परिसमापक का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध हैं	408, लक्ष्मी दीप बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली—110092 ई मेल vineetsinghalco@hotmail.com
परिसमापक के लिए पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाले पते और ईमेल	408, लक्ष्मी दीप बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली—110092 ईमेल:cirp.akritiimpl@gmail.com
	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत हैं कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता समापन तिथि परिसमापन आरंभन तिथि परिसमापन के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर परिसमापक का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध हैं परिसमापक के लिए पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाले पते

तद्दवारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली ने **14 अप्रैल 2023** (हालाँकि 7 अगस्त 2023 को आंदेश की प्रतिलिपि परिसमापक के संज्ञान में लाई गई) को **आकृति इन्फो—मीढिया प्राइवेट लिमिटे** ढ का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है । आकृति इन्फो—मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को इसके द्वारा 06 सितंबर 2023 को या उससे पहले

दावे प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 06 सितंबर 2023

प्रमाण के साथ अपने दावे परिसमापक को क्रम सं. 10 में उल्लेखित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता हैं। वित्तीय लेनदार अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करेंगे । अन्य सभी हितधारक अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं ।

असत्य या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्मीना किया जा सकता हैं । पदि कोई जिल्ह्यारक परिसमापन प्रक्रिया के दौरान अपने दावे प्रस्तत नहीं करता है तो भारतीय दिवाला एवं दिवासियापन बोर्ड (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमों के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान ऐसे हितधारक द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे, 2016, धारा 38 के तहत पेश माने जाएंगे । परिसमापक, आकृति इन्फो—मीडिया प्राइवेट लिर्मिटेड **स्थान**ः नई दिल्ली

पंजी. सं : IBBI/IPA-001/IP-P00810/2017-2018/11377 | एएफए 7 दिसंबर 2023 तक वैध



moneywise. be wise.

SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC063609

Regd. Office: 11/6-B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005

Phone No: 011-30111000 | email: smc@smcindiaonline.com | website: www.smcindiaonline.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2023

(₹ IN LAKHS) CONSOLIDATED Quarter Ended Year Ended PARTICULARS June 30, 2022 March 31, 2023 June 30, 2023 March 31, 2023 (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Audited) 1 Total Income from operations 31,306.85 30,563.60 29,049.30 121,667.59 2 Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items) 3,994.75 3,068.21 4,939.63 16,195.66 3 Net Profit for the period before Tax (after Exceptional Items) 3,994.75 3,068.21 4,939.63 16,195.66 4 Net Profit for the period after Tax (after Exceptional Items) 3,012.74 2,188.88 3,700.37 12,039.62 3,902.03 5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit 3,017.86 12,542.50 2,211.38 (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) 6 Paid Up Equity Share Capital 2,094.00 2,094.00 2,210.10 2,094.00 (Face Value of ₹ 2 each) 7 Reserves 91,179.46 8 Earnings per share (EPS) (in ₹) 2.88 3.29 Basic & Diluted EPS 2.11 11.25

1 The above unaudited results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on Wednesday, the 9th day of August, 2023. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the results and issued an unqualified report.

2 The above is the extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)

Regulation, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Investor Corner Section of our website www.smcindiaonline.com. 3 Additional information on standalone financial results is as follows:

(₹ IN LAKHS) Quarter Ended Year Ended PARTICULARS June 30, 2023 March 31, 2023 June 30, 2022 March 31, 2023 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Audited) Income from operations 18,067.00 16,165.55 16,813.25 67,915.41 4,552.91 1,873.09 4,465.31 11,986.50 Profit before tax 1,444.52 3,577.24 9,337.23 Profit after tax 3,916.84

4 The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time.

5 Figures for the quarter ended March 31, 2023 are the balancing figures between audited figures for the full financial year and the reviewed year to date figures upto the third quarter of the financial year.

For and on behalf of the Board

Place: New Delhi Date: August 9, 2023

S. C. AGGARWAL (Chairman & Managing Director)

(DIN: 00003267)

MAHESH C. GUPTA (Vice Chairman & Managing Director) (DIN: 00003082)

VINOD KUMAR JAMAR (President & Group CFO)

www.readwhere.com